



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2005, शनिवार/अग्रहायण 13—अग्रहायण 19, 1927

No. 28] NEW DELHI, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2005, SATURDAY/AGRAHAYANA 13—AGRAHAYANA 19, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

## भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

आ. अ. 141.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, असम सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्रीमती टी. वाई. दास, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री जय प्रिये प्रकाश, आई. ए. एस. (ए. एम. 1982) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए असम राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री जय प्रिये प्रकाश, असम सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री जय प्रिये प्रकाश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के रूप में कार्य करते हुए, असम सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/ए एस/2005-का. प्रशासन]

आदेश से,  
स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 29th November, 2005

O.N. 141.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Assam hereby

nominates Shri Jai Priye Prakash, IAS (AM: 1982) as the Chief Electoral Officer for the State of Assam with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Smt. T. Y. Das, IAS.

2. Shri Jai Priye Prakash shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Assam, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Jai Priye Prakash while functioning as the Chief Electoral Officer, Assam shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Assam except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/AS/2005-P. Admn.]

By Order,  
STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2005

आ. अ. 142.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्थान विधान सभा के साधारण-निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिन जाने पर भी उक्त असफलता के लिए ना तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है :—

### सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता के कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	15-नोखा (अ. जा.)	श्री जवानाराम गांव व पोस्ट-मोरखाणा तहसील-नोखा, बीकानेर, राजस्थान	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	—वही—	—वही—	श्री बुधाराम, गांव व पोस्ट-बीकासर तहसील-नोखा, बीकानेर, राजस्थान	—वही—
3.	—वही—	—वही—	श्री रावत राम, गांव व पोस्ट-सोमलसर, तहसील-नोखा, बीकानेर, राजस्थान	—वही—
4.	—वही—	—वही—	श्री मुलचन्द, 3 (जी) 21, पवनपुरी, बीकानेर, राजस्थान।	—वही—
5.	—वही—	16—डूंगरगढ़	पूनमचन्द शर्मा, मुख्य बाजार, सूरज मार्ग, पो. बीदासर, राजस्थान।	—वही—

1	2	3	4	5
6.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	16-डूंगरगढ़	श्री वासुदेव, श्री करणी मंदिर मौहल्ला, पो. नोखा, राजस्थान।	लेखा दाखिल नहीं किया
7.	—वही—	—वही—	श्री तोलाराम, ग्राम-शेरूणा, तहसील- डूंगरगढ़, राजस्थान।	—वही—

[ सं. 76/राज./2003(9) ]

आदेश से,  
के. आर. प्रसाद, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 7th December, 2005

**O.N. 142.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Rajasthan Legislative Assembly held in 2003 specified in column (2) and held from the constituency specified in column 3 against his name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by him, if any, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	15-Nokha (SC)	Sh. Javanaram, Vill & Post-Morkhana, Tehsil-Nokha, Bikaner, Rajasthan	Account not lodged
2.	—do—	—do—	Sh. Budharam, Vill & Post-Bikasar, Tehsil-Nokha, Bikaner, Rajasthan	—do—
3.	—do—	—do—	Sh. Ravat Ram, Vill & Post-Somalsar, Tehsil-Nokha, Bikaner, Rajasthan	—do—
4.	—do—	—do—	Sh. Moolchand, 3 (G) 21, Pawanpuri, Bikaner, Rajasthan	—do—
5.	—do—	16- Dungargarh	Poonamchand Sharma, Main Market, Suraj Marg, Post-Bidasar, Rajasthan	—do—

1	2	3	4	5
6.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	16-Dungargarh	Sh. Vasudev, Sri Karani Mandir Mohalla, Post-Nokha, Rajasthan	Account not lodged
7.	—do—	—do—	Sh. Tolaram, Vill-Sheruna, Tehsil-Dungargarh, Rajasthan	—do—

[No. 76/RJ/2003(9)]

By Order.

K. R. PRASAD, Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2005

आ. अ. 143.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट राजस्थान लोक सभा के साधारण-निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है :—

## सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता के कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	2-बीकानेर	श्री सुरेन्द्र कुमार गांधी, वार्ड नं. 20, मंडी पीलीबंगा, तह. पीलीबंगा, जिला-हनुमानगढ़, राजस्थान।	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	—वही—	—वही—	सरोज, एसआईसीओ कम्पनी के पास, गंगासर रोड, बीकानेर, राजस्थान।	—वही—
3.	—वही—	—वही—	श्री राजेन्द्र सिंह, इंदिरा कॉलोनी, बीकानेर राजस्थान।	—वही—

[ सं. 76/राज-लो.स./2004(6) ]

आदेश से,  
के. आर. प्रसाद, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th December, 2005

**O.N. 143**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2004 for the State of Rajasthan specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his name has failed to lodge the account of his election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by him, if any, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004	2-Bikaner	Sh. Surender Kumar Gandhi, Ward No. 20, Mandi Pilibanga, Th. Pilibanga, Distt. Hanumangarh, Rajasthan.	Account not lodged.
2.	—do—	—do—	Saroj, Near MICO Company, Gangasahar Road, Bikaner, Rajasthan.	—do—
3.	—do—	—do—	Sh. Rajendra Singh, Indra Colony, Bikaner, Rajasthan.	—do—

[No. 76/RJ-HP/2004 (6)]

By Order,

K. R. PRASAD, Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2005

**आ. अ. 144.**—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ 4 में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है।

3424 GI/05-2

## सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2005।	162-हैंसर बाजार (अ० जा०)	ओमहरी बेलदार ग्राम-पोस्ट कूरी जिला-गोरखपुर उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	—वही—	शिव कुमार ग्राम-दूलमपुर पोस्ट-उमरीया बाजार जिला-सन्त कबीर नगर उत्तर प्रदेश।	—वही—
3.	—वही—	261-इलाहाबाद पश्चिम	अजेश कुमार सबदरगंज पोस्ट व थाना पुरामुफ्ती जिला-इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।	—वही—
4.	—वही—	—वही—	लाल प्रकाश सिंह ग्राम-चन्द्रसेन पोस्ट शेरगढ़ जिला-इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।	—वही—
5.	—वही—	227-वाराणसी उत्तरी	मु० रफीक अन्सारी 29/9ए मुहल्ला वलुवावीर अंश वाराणसी	—वही—
6.	—वही—	—वही—	विवेन्द्र प्रताप यादव ग्राम-नसोपुर, पो० भानीपुर, जि० आजमगढ़	—वही—
7.	—वही—	—वही—	विजय जायसवाल सी० 9/314, हबीबपुरा चेतनगंज वाराणसी	—वही—
8.	—वही—	344-खैरागढ़	ज्ञान सिंह, ग्राम-मेवली पोस्ट-जगनेर, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश।	—वही—
9.	—वही—	—वही—	सुरेश चन्द ग्राम व पोस्ट-सैया जिला-आगरा उत्तर प्रदेश।	—वही—
10.	—वही—	—वही—	मोहन सिंह 31/145/1, राजपूत गुम्मत, आगरा	—वही—

[सं० 76/उ. प्र.-वि. स./2005 (उप)]

आदेश से,

एस. के. कौरा, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 7th December, 2005

**O.N. 144.**—Whereas, the Election Commission of is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the By Election to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder as shown in column (5) of the said table ;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particular of Election	Sl. No. and Name of Constituency	Name and Address of Contesting Candidates	Reason of Disqualification
1	2	3	4	5
1.	By election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2005	162-Hainsar Bazar (SC)	Sh. Om Hari Beldar, Vill & Post Kuri, Distt. Gorakhpur. Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	—do—	—do—	Sh. Shiv Kumar Vill-Dulampur, Post-Umariya Bazar, Distt-Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.	—do—
3.	—do—	261-Allahabad West	Ajesh Kumar Sabadarganj, Post & P. S. Purmufti, Distt.-Allahabad, Uttar Pradesh	—do—
4.	—do—	—do—	Shri Lal Prakash Singh Vill-Chandrasen, Post Shergarh, Distt.-Allahabad Uttar Pradesh	—do—
5.	—do—	227-Varanasi North	Mohd. Rafique Ansari 29/9 Amuhalla Baluwavir, Varanasi	—do—
6.	—do—	—do—	Virendera Pratap Yadav Vill. Nasopur, Post. Bhanipur, Distt.-Azamgarh.	—do—
7.	—do—	—do—	Vijay Jaiswal C9/314, Habibpura, Chetganj, Varanasi.	—do—
8.	—do—	344-Kheragarh	Sh. Gyan Singh, Vill. Mewli, Post-Jagner, Distt.-Agra, Uttar Pradesh.	—do—
9.	—do—	—do—	Sh. Mohan Singh 31/145/1 Rajput Gummat, Agra.	—do—
10.	—do—	—do—	Suresh Chand Vill & Post Saiyan, Distt.-Agra, Uttar Pradesh.	—do—

[No. 76/UP/LA/2005 (Bye)

By Order.

S. K. KAURA, Secy.